



Date: 09.02.2021

To,

The Manager Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing voting facility (by postal ballot and E-voting) to the Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Postal Ballot Notice.

Pursuant to Rule 20(3) (v) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has published an advertisement in "Financial Express" and "Jansatta" newspaper dated 09th February, 2022.

Kindly take above information on your record.

For and on behalf of HARDWYN INDIA LIMITED

For Hardwyn India Limited

Director

Rubaljeet Singh Sayal Managing Director DIN: 00280624

**Enclosed-Newspaper** 

FINANCIAL EXPRESS

EMD:

MADHYA MARG, SECTOR 8-C, CHANDIGARH, PHONE NO. 0172-4567165 **CORRIGENDUM FOR E-AUCTION SCHEDULED ON 10.02.2022** Public in general is hereby informed by this notice that E -Auction Sale Notice published in newspapers i.e. Financial Express & Jansatta on 09.01.2022 for sale of properties by eauction which is scheduled on 10.02.2022, out of which auction of properties in account of BEST FOODS LIMITED- Property No. 2 stands withdrawn from the E-Auction on 10.02.2022 due to some unavoidable reasons. Details as under: PROPERTY 2:- Two Shops (Double Storied) having area of 66.66 sq.

STATE BANK OF INDIA STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH, FIRST FLOOR, S.C.O. 99-107,

yards (20'x30'), situated in Main Bazar, Opp. Devi Mandir, Ward No. I, Rs. 0.58 Crore Indri, Tehsil Indri, Distt. Karnal, through relinquishment deed no. 74/1 dated 19.04.2002 owned by Sh. Dinesh Gupta S/o Sh. Mohinder Pal Rs.5.80 Lakh Jindal. (Symbolic Possession).

O SBI

Auction for remaining properties except at Sr. No. 3, 6 and 2 shall be held as per schedule i.e. on 10.02.2022 as already published in notice dated 09.01.2022. The property at Sr. No. 3 has already been withdrawn vide publication dated 18.01.2022 and property at Sr. No. 6 has also already been withdrawn vide publication dated 26.01.2022. All concerned may please note the same. Place: Chandigarh Date: 09.02.2022 **Authorised Officer** 

#### punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक Zonal SASTRA Centre, Gurugram ( D No 834500)

Plot no 5, Institutional Area, Sector -32, Gurugram, Email id-zs8345@pnb.co.in

M/s NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH PVT LTD., Registered Office - Plot no 1202,1203 and 1204, DLF City, Phase-I, Sector-28, Gurugram-122002 M/s NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH PVT. LTD., Communication - A-5, Sector 4

Amaltash Marg, Block-A Sector 4 Noida M/s NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH PVT LTD, Communication - 808, Tower B-4 Spaze | Tech Park, Sector 49, Sohna Road, Gurugram, Harvana-122002

M/s NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH PVT. LTD., Works - Khasra No 11 Jaisinghpura Banger Mauza Mathura, Behind Sanwariya CNG Station Delhi Agra

Highway, NH-2, Mathura Uttar Pradesh M/s NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH PVT LTD, Works - 672, Geeta ka Mandir Guru Ka Tal, Sikandra, Agra, Uttar Pradesh,

M/s NAYATI HEALTHCARE & RESEARCH PVT. LTD., 1st Floor, Office No 7, Shir Narayan Complex, MG Road, Sikanderpur, Gurgaon-122002

Ms. Nira Radia, Akash Ganga - 9, Oak Drive DLF, Chattarpur Farms Chattarpur, South Delhi, Haus Khas, New Delhi- 110074

Ms. Karuna Menon, Akash Ganga - 9, Oak Drive DLF, Chattarpur Farms Chattarpur South Delhi, Haus Khas, New Delhi- 110074

Mr. Satish Kumar Narula, 75 B, Pocket E, Gangotri Enclave Alaknanda New Delhi-110019 Mr. Narender Singh, House No 1912 Dampier Nagar Kotabali Mathura Pin 281001

Shri Raj Kumar Ajit Singh Alias Shri Inderjet Singh S/o Shri Pradhyumna Singh Awagarh House, Dampier Nagar House No 704, Mathura Uttar Pradesh Pin 281001 M/s Naarayani Investment Private Limited, Registered Address: Plot No 1202.1203 and 1204 DLF City Phase I Sector 28, Gurugram - 122002

Reg: Identification of default in the loan account of M/s Nayati Healthcare 8 Research Pvt. Ltd. with the Bank, as 'Wilful' M/s Navati Healthcare & Research Pvt. Ltd. has been availing the following facilities from

our bank:

Sr. No	Facility	Limit	Balance Outstanding as on 31.12.2021
1	Cash Credit	5,00,00,000.00	5,92,82,698.00
2	Term Loan-I	25,00,00,000.00	29,94,64,567.43
3	Term Loan-II	15,00,00,000.00	18,26,94,422.86
	TOTAL	45,00,00,000.00	54,14,41,688.29

classified as Non Performing Asset by the bank in term of RBI guidelines with effect from 31.03.2021, with balance outstanding of Rs. 54,14,41,688.29 as on 31.12.2021 On scrutiny of the said account, the following events of wilful default are perceived:

1. Capacity to pay You are, therefore, called upon to rectify the aforesaid default(s) within 10 days from receipt of this notice, failing which we shall be constrained to recommend your names to

the Identification Committee, to declare you as wilful defaulter in consonance with the RBI

Please take note of the fact that once you are declared as Wilful Defaulter, the following consequences may ensue against you: Non sanction of additional facility by any Bank/FI.

Debarring from institutional finance from SCBs, DFIs, Govt. owned NBFCs nvestment institutions etc. for floating new ventures.

Besides legal process, and foreclosure of recovery of dues, if warranted, criminal proceedings may be initiated.

Notwithstanding the above, bank reserve its right to take appropriate legal action for recovery of the bank dues without any further reference at your risk, responsibility and Zonal SASTRA Head

e punjab national bank

#### Head Office, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 Date: 18.01.2022 ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF THE WILFUL

DEFAULTERS, PURSUANT TO PROCEEDINGS CONDUCTED AT HEAD OFFICE ON 18.01.2022 M/s Sapphire Digital Printers (Rs. 35.98 crores)

CS: Gurugram / ZS: Gurugram Date of NPA: 31.03.2018

In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CID.BC.22/20.16.003/2015-16 dated July 01, 2015, Committee for Identification of Wilful Defaulters issued show cause notice dated 09.08.2021 to following persons mentioning the grounds on the basis of which they are identified as wilful Defaulter(s):-

1. M/s Sapphire Digital Printers (Borrower) 2. Sh. Neeraj Chaudhary (Proprietor)

2022/677

finanATED: 07.022022n

PUNB014810BHAG01

पंजाब मैशनल बैंक

Vide show cause notice, the above-named persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they not be classified as wilful defaulters. Inspite of service of the said show cause notice(s), no reply/representation was made by the above persons.

Thereafter, the Identification Committee after due consideration of the facts on record, in its meeting held on 22.11.2021 had observed that the above-named persons had defaulted in payment/repayment obligations to the Bank and identified them as wilful defaulters on the following grounds.

Unauthorised Disposal/Removal of Charged Assets Movable fixed assets given for securing the term loan has been disposed off by the

borrower without knowledge of the bank. The value of such assets is Rs. 9.00 Crore as pe valuation report dt. 01.1 0.2018 Accordingly, the Identification Committee had issued order on 26.11.2021. In its said

order, the committee had also directed that the above-named persons are free to make a written representation against the order of Identification Committee, within a period of 15 days from the date of receipt of order to the Review Committee headed by the MD & CEO Despite service of the order of the Committee for Identification of Wilful Defaulters of the

Bank, no representation was received from the Borrower and its above-named Proprieto mentioned at serial no.1 to 2. ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL

**DEFAULTERS:** The Review Committee chaired by the undersigned MD & CEO of the Bank and the

Directors of the Bank as members, after due consideration of the above said facts and evidence on record in its meeting held on 18.01.2022 concurred with the order of Identification Committee and found that the captioned borrower and its Proprietor are responsible for above event(s) of wilful default, which constitute cogent ground(s) of being declared as 'Wilful Defaulter' in terms of extant Bank guidelines issued in consonance with the RBI guidelines/Master Circular No. DBR. No. CID.BC.22/20.16.003/2015-16 dated 01.07.2015 and declared M/s Sapphire Digital Printers, and its Proprietor Sh. Neeraj Chaudhary as "Wilful Defaulter(s)" for the reason(s) mentioned above

PANKAJ JOSHI **GAUTAM GUHA** SANJEEV KUMAR SINGHAL (DIRECTOR-MEMBER) (DIRECTOR-MEMBER) (DIRECTOR-MEMBER) (CH.S.S. MALLIKARJUNA RAO - CHAIR PERSON) MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hardwyn India Limited CIN: L74990DL2017PLC324826

Regd. Office: B-101, Phase-1, Mayapuri, New Delhi 110064 Email Id: accounts1@hardwyn.com

Website: www.hardwyn.com Phone: +91-11-28115352 POSTAL BALLOT NOTICE Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies

Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on Tuesday, February 08, 2022 completed the dispatch of the postal ballot notice. along with the postal ballot form through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, February 04, 2022 and through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Business reply envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matter:

Item No.	Description of the Resolution
1.	Migration from BSE SME Platform to Main Board of BSE in addition to Main Board of NSE

The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot shall commence from Friday, February 11, 2022 at 09.00 AM and ends on Saturday, March 12, 2022 at 5.00 P.M. and for electronic mode voting shall commence. from Friday, February 11, 2022 at 09.00 AM and ends on Saturday, March 12, 2022 at 5.00 P.M. The Board of Directors has appointed M/s. KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are

not later than 05:00 PM on Saturday, March 12, 2022. All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through e-voting/postal ballot forms after the aforesaid date shall not be considered valid

requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer

Any member who does not receive the Postal Ballot form may either send an email to or may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicate postal ballot form. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the company The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Wednesday, March 16,

2022, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to

contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com

> **Rubaljeet Singh Sayal Managing Director** DIN: 00280624

Hardwyn India limited

### punjab national bank पंजाब मेशनल बैंक

Head Office, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 Date: 18.01.2022

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF THE WILFUL DEFAULTERS, PURSUANT TO PROCEEDINGS CONDUCTED AT HEAD OFFICE ON 18.01.2022 M/s SBJ Exports & Mfg Private Limited (Rs. 13.59 Crores)

> CS: Gurugram / ZS: Gurugram Date of NPA: 27.02.2017

In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CID.BC:22/20.16.003/2015-16 dated July 2015. Committee for Identification of Wilful Defaulters issued show cause notice dated 11.10.2021 to following persons mentioning the grounds on the basis of which they are identified as wilful Defaulter(s):-

1. M/s SBJ Exports & Mfg Private Ltd (Borrower) 2. Sh. Amit Jain (Director/Guarantor)

3. Sh. Avinash Kumar Jain (Director/Guarantor)

4. Sh. Mukesh Gupta (erstwhile Director) 5. Sh. Naresh Chand Jain (Guarantor)

6. Smt. Anju Jain (Guarantor)

Vide show cause notice, the above-named persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they not be classified as wilful defaulters. Inspite of service of the said show cause notice(s), no reply/representation was made by the above persons.

Thereafter, the Identification Committee after due consideration of the facts on record, in its meeting held on 22.11.2021 had observed that the above-named persons had defaulted in payment/repayment obligations to the Bank and identified them as wilful defaulters on the following grounds. Capacity to Pay

Net means of Guarantors are as follows:

Name of Guarantors	Net means	CR Dated
Sh. Naresh Chand Jain	44.53 crores	31.03.2013
Sh. Amit Jain	59.95 crores	31.03.2015
Sh. Avinash Jain	224.51 crores	31.03.2015
Smt. Anju Jain	107.98 crores	31.03.2015

Diversion of Funds

The company has deliberately 'reduced the debtors from Rs.41.99 Crore to Rs.1.91 Crore by showing sale return of Rs.37.49 Crore and providing discount of Rs.3.44 Crore. Further, company has not routed receipt of Rs. 112.97 Crores and payments of Rs. 60. 72 Crores in the books of account. On verification of the, ROC records, major customers & suppliers of the company have common directors.

Accordingly, the Identification Committee had issued order on 26.11,2021. In its said order, the committee had also directed that the above-named persons are free to make a written representation against the order of Identification Committee, within a period of 15 days from the date of receipt of order to the Review Committee headed by the MD & CEO

Despite service of the order of the Committee for Identification of Wilful Defaulters of the Bank, no representation was received from the Borrower and its above-named Directors/ Guarantors, mentioned at serial no. 1 to 6. ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL

DEFAULTERS:

The Review Committee chaired by the undersigned MD & CEO of the Bank and the Directors of the Bank as members, after due consideration of the above said facts and evidence on record in its meeting held on 18.01.2022 concurred with the order of Identification Committee and found that the captioned borrower and its Directors/ guarantors are responsible for above event(s) of wilful default, which constitute cogent ground(s) of being declared as 'Wilful Defaulter' in terms of extant Bank guidelines issued in consonance with the RBI guidelines/Master Circular No. DBR. No.

CID.BC.22/20.16,003/2015-16 dated 01.07.2015 and declared M/s. SBJ Exports & Mfg Private Ltd, and its Directors/ Guarantors Sh. Amit Jain, Sh. Avinash Kumar Jain, Sh. Mukesh Gupta, Sh. Naresh Chand Jain and Smt. Anju Jain as "Wilful Defaulter(s)" for the reason(s) mentioned above.

**GAUTAM GUHA** SANJEEV KUMAR SINGHAL PANKAJ JOSHI (DIRECTOR-MEMBER) (DIRECTOR-MEMBER) (DIRECTOR-MEMBER)

(CH.S.S. MALLIKARJUNA RAO - CHAIR PERSON) MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

## punjab national bank CIRCLE SASTRA CENTRE

MOGA CORRIGENDUM Refer to our E Auction Sale Notice

Published on Dated 05.02.2022 for the account of M/s Gillco Rice Mill. In this Account Please read the Reserve Price Rs. 56,10,000/- & EMD Rs. 5,61,000/- instead of Reserve Price Rs. 62,33,000/- & EMD Rs. 6,23,300/-. (Authorised Officer)

## VALLABH STEELS LIMITED

Read, Office: G.T. Road, Village Pawa. Sahnewal, Ludhiana- 141 120 CIN: L27109PB1980PLC004327 Tel.+91-161-2511413, Fax: +91-161-2511414 E-mail: fin.ho@vallabhgroup.com, website: www.vallabhsteelsltd.in

## COMPANY NOTICE Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company at G.T. Road, Village Pawa, Sahnewal, Ludhiana on Monday, the 14th February, 2022 to take on record the unaudited financial results for the guarter ended 31st December, 2021. The said information is also available on Company's website at www.vallabhsteelsltd.in and also on the stock exchange website at www.bseindia.com.

FOR VALLABH STEELS LIMITED

Date: 08-02-2022 (KAPIL KUMAR JAIN) Place: Ludhiana Chairman By Order of the Board of Directors

## "IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## **PUNJAB & SIND BANK** (A Govt. of India Undertaking)

ZONAL OFFICE LUDHIANA

[RULE 8 (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES) Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab & Sind Bank, Under the

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of power conferred under section 13(2) read with security interest (Enforcement) Rules, 2002. Issued a demand notice under Section 13(2) of SARFAESI Act 2002 calling upon the following borrower(s)/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in notice within 60 days of the date of receipt of the said notice. The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount notice is hereby given to the

Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described here below in Exercise of the power conferred on him/ her under section 13(4) of said ACT read with rule 8 of the said rules.

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and dealing with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank, for an amount mentioned here in below, besides interest and other charges/expenses against calling

The borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

Name of the Branch Date of Amount as per Borrower(s)/Guarantor(s) Immovable Property/ies | Demand Notice | Possession **Demand Notice** Branch Office : Raikot Land meausuring OK-06M- 07.10.2021 04.02.2022 Rs. 6.60.418.38 Borrower : M/s Satish 6S being 5/51 share of total land (Rupees Six Lacs Sixty Kumar Ajay Kumar, Mr. measuring 3K-8M comprised of Khata Thousand Four Hundred Satish Kumar S/o Mr. Nos. 603/641, Khasra No. 205//12/1 as per Eighteen & Paisa Thirty Eight Ram Rachpal, Guarantor Jamabandi for the year 2012-13 situated at Only) as on 30.09.2021 Plus : Mr. Vidya Sagar Jindal Village Raikot-4, Hadbast No. 160, Tehsil further interest and other charges S/o Fagir Chand. Raikot, District Ludhiana vide Wasika No. thereon. 1113 dated 19.06.2001 Bounded as : East : Sukhdev Singh, West : Road, North : Manjit Singh, South

Sukhdev Singh. Branch Office: Property/plot No. 77, measuring 09.08.2021 07.02.2022 Rs. 8,88,228/-112 sq. yards, comprised in Khasra No. 14//7. Salem Tabri, Ludhiana

Borrower: Sh. Shiv Khata No. 26/27, as per Jamabandi for the year Thousand Two Hundred Kumar S/o Sh. Ram Bhaian 2004-2005, situated at Village Bhaura, Hadbast Rai. Guarantor: 1. Smt. No. 88, abadi known as New Chander Nagar.

Kumar, 2, Sh. Anil Kumar registered with Sub Registrar, Ludhiana, vide thereon w.e.f. 09.08.2021. S/o Sh. Shiv Kumar, All R/o wasika No. 11783 dated 20.09.2007. House No. 77, Setreet No. 1, New Chander Nagar, Jalandhar Bye Pass, Near Jain School, Ludhiana. Property/plot No. 77, measuring 09.08.2021 07.02.2022 Rs. 5.87.180/-Borrower: Sh. Shiv Khata No. 26/27, as per Jamabandi for the year

Twenty Eight Only) with Sumita Devi W/o Sh. Shiv Tehsil & District Ludhiana as per sale deed duly interest and other charges

Eighty Only) with interest and

other charges thereon w.e.f

(Rs. Fifteen Lacs Thirty Two

**AUTHORISED OFFICER** 

(Rs. Eight Lacs Eighty Eight

Branch Office: Salem Tabri, Ludhiana 112 sq. yards, comprised in Khasra No. 14//7, (Rs. Five Lacs Eighty Seven Thousand One Hundred

Kumar S/o Sh. Ram Bhajan 2004-2005, situated at Village Bhaura, Hadbast Rai. Guarantor: 1. Smt. No. 88, abadi known as New Chander Nagar. Sumita Devi W/o Sh. Shiv Tehsil & District Ludhiana as per sale deed duly Kumar Both R/o House No. registered with Sub Registrar, Ludhiana, vide 09.08.2021. 77. Setreet No. 1, New wasika No. 11783 dated 20.09.2007

Branch Office: Property/Plot measuring 150 sq. 01.11.2021 07.02.2022 Rs. 15.32.632.61 Salem Tabri, Ludhiana yards comprised in Khasra No. 16//10/1, 11/2/2, Borrower: Sh. Arvind 12/1/1, 13/1/2, 14/1, Khata No. 360/1/382/1 as

Chander Nagar, Jalandhar Bye Pass, Near Jain School, Ludhiana.

Arora S/o Sh. Hans Rai per jamabandi for the year 2008-09, Situated at Arora. 2. Smt. Seema Village Bhattian, Hadbast No. 89, Locality Known Arora W/o Sh. Arvind Arora as Near Hazuri Bagh Colony, Tehsil and District both R/o House No. 34, Ludhiana as per sale deed duly registered with Street No. 1, New Bhagat the office of Sub-Registrar, Ludhiana, vide wasika No. 17527 dated 22.02.2013. Singh Colony, Near Hazuri Bagh Colony, P.O. Bhattian Bet, Ludhiana. Guarantor: Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Sushil Kumar R/o House No. 1418, Indra Colony, Rahon Road, Ludhiana. DATE: 08.02.2022 PLACE: Ludhiana

Thousand Six Hundred Thirty Two & Paisa Sixty One Only) with interest and other charges thereon w.e.f. 01.11.2021



Borrowers / Guarantors

Zonal Stressed Asset Recovery Branch, Jabalpur, 1489, Wright Town, Near Manas Bhawan, Jabalpur- 482002 (M.P.) Ph.: 0761-2480150, 2480160, Mob.: 7024101852, SALE NOTICE

known encumbrances, if any name of

E-AUCTION

Time of

Rs. 201.20 Lacs

Rs. 20.12 Lacs

## SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read

with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower, Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property

mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and "Without recourse basis" for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower(s) / Mortgagor (s)/ Guarantor (s) / Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below-Reserve Price Date & Demand Notice Date Name & address of Description of the immovable property with

		Property Owner / Nature of Possession	Bid Increase amt.	200 E 100 E 100 E 100 E	Total Dues
1	(1) a) M/s Travelwala India Pvt Ltd., Registered office: EF-859, 8th Floor,	EMDTD of a office space premises bearing	Rs. 5045000/-	04/03/2022	26/09/2018
	JMD, Megapolis, Sohana Road, Gurgaon, Haryana Pin code 122018 b) M/s Travelwala India Pvt Ltd., Office: No.247, Tower-B, 2nd Floor,	247, Tower-B, situated on second floor, in the multi stories commercial complex known as	Rs. 505000/-	101000000000000000000000000000000000000	11/12/2018
	Sector-47, SPAZEEDGS, Sohana Road Gurgaon (Haryana). Pin code 122018 b) M/s Travelwala India Pvt Ltd., Branch office: Ruchi Complex, New Bombay Market, Raipur (CG) 492001 (2) Mr. Harashd Vashistha S/o Shashikant Sharma Director/Guarantor of M/s Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Dist. Raipur (CG) 492001 (3) Mr. Kamal KathaneS/o Bharat Kathane Director/Guarantor of M/s Travelwala India Pvt Ltd., House NoLIG 373, College ward, Behind School, Sonkarbada, Thakur House, Shitla Colony, Kushalpur, Village Daganiya, Raipur, Tah. & Dist. Raipur (CG) 492001 (4) Mr. Ramakant Sharma S/o J. M. Sharma Guarantor of M/s Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Dist. Raipur (CG) 492001 (5) Mr. Shashikant Sharma S/o J. M. Sharma Guarantor of M/s Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Dist. Raipur (CG) 492001 (6) Mr. Devesh Vashistha S/o Ramakant Sharma Guarantor of M/s Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. & Travelwala India Pvt Ltd., B-7 Sector-1, PH No.113/44, RIC Raipur, Avanti Vihar, Mouza Telibandha, Maharshi Valmiki Ward No. 28, Raipur, Tah. &	'Spazedge', Sector 47, Gurgaon (Haryana) in the name of Mr. Devesh Vashistha S/o Ramakant Sharma. Boundaries: As per below- North -Other Property, South-Corridor, East- Toilet block, West-Office space No 246 (Symbolic Possession)	Rs. 50,000/-	04/03/2022 2.00 pm	Rs. 62856611.3 + interest 01.09.2018 and charges

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibapi/in. Also, prospective bidders may contact the authorized officer Shri Rakesh Bhatia (Mob.: 7575045097) & Shri Khushal Nimje (Mob.: 7974551470). Authorised Officer, Bank Of Baroda Place: Jabalpur, Date: 08.02.2022

# punjab national bank ... Together for the better

**BHAGWAN DASS & SONS** 

&Distt Patiala registered in the name of M/s AB Mehta Motors Pvt. Ltd. (Type of Possession: Physical Possession)

**CIRCLE OFFICE: PLOT NO. 445, PHASE-3, NEAR DADI POTI PARK, MODEL TOWN, BATHINDA** 

(a) Measuring 677 sq. yard situated at hazi rattan Road Near Grain Market Bhatinda as per sale deed no.7249 dt. 31.12.2009 owned by Sh. Raj Kumar s/o

Dist. Raipur (CG) 492001

No.

**E-AUCTION SALE NOTICE** 

05.10.2018

Rs. 33578332.88

**AUTHORISED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK** 

Intt. and Charges w.e.f. 01.10.2018

## Date and Time of E-Auction: 25.02.2022 AT 11:00 AM TO 04:00 PM All that part and parcel of Commercial building bearing MC No. 141/A/4 and 141A measuring 1327 Sq. yard situated at Hazi Rattan Road Near Grain market eOBC Bank Street Bathinda

	771	73-01745	BhagwanDass (1/2 share) and Smt. Sonia Rani w/o Raj Kumar (1/2 share)	04.01.2019	25.02.2022
1	(b) Measuring 650 Sq. Yard s	ituated at HaziRattan Road Near Grain Mark	etBhatinda as per sale deed no.96 dt. 06.04.2010 owned by Sh. Raj Kumar s/o BhagwanDass (1/2 share) and Smt. Sonia Rani w/o Raj Kumar (1/2share) Bounded	by East-Maheshwari Saw Mills, W	/est-Libra Bus Service, North-
	street 25' wide, South-street 2	20'wide. (Type of Possession: Symbolic P	ossession)		
ı	2022/678	eOBC Bank Street Bathinda	All that part and parcel of Vacant Plot measuring 6 Bigha-10 Biswa and 2 Bigha 10 Biswa =9000 Sq. Yard or 1.86 Acre adjoining sushiladevi school, opp Nissan		Rs. 297.00 Lacs
	110	COLD STAD MINES	- Micra Showroom, VillChamarheri, Patiala Rajpura Road, Tehsil &Distt. Patiala registered in the name of Smt. Babita Mehta & Sh. Amarjit Mehta and M/s AB	Rs. 37554300.89	Ps 20 70 Lacs

L.,		.s was: (Type of Federal of Time of Ti			
67-3	2022/678	eOBC Bank Street Bathinda	All that part and parcel of Vacant Plot measuring 6 Bigha-10 Biswa and 2 Bigha 10 Biswa =9000 Sq. Yard or 1.86 Acre adjoining sushiladevi school, opp Nissan		Rs. 297.00 Lacs
110	PUNB014810GOLD01		Micra Showroom, VillChamarheri, Patiala Rajpura Road, Tehsil &Distt. Patiala registered in the name of Smt. Babita Mehta & Sh. Amarjit Mehta and M/s AB Mehta Motors Pvt. Ltd. bounded as under North 144.75' Road & 69'5" Land of Sushiladevi, South 135.5' Abadi& 63.5' Rasta Pakka, East: 638'7" owner, West		Rs. 29.70 Lacs
	771	73_01745	457'+160 25' Sushiladevi school	06.07.2020	25 02 2022

Land Msg. 6 Bigha 10 Biswa having sale deed no.1303& 1304 dated 25.04.12 registered with Sub Registrar Patiala comprised in Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat 100/95 Khatoni 14/2010 in Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat 100/95 Khatoni 14/2010 in Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat 100/95 Khatoni 14/2010 in Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat 100/95 Khatoni 14/2010 in Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat 100/95 Khatoni 14/2010 in Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa& Khewat no.99/94 Khatoni no.134 Khasra no. 35(1-8)31(9-13) kita 2 tadadi11 Bighe-1Biswa being 32/221 share i.e. 1 Bigha12 Biswa being 32/221 share i.e. 1 Biswa being Khasra no. 36(6-5),39(3-0),546/37 (3-17),kita 3 kulltadadi i.e. 13Bigha 2Biswa the 98/483 share i.e. 4 Bigha 18 Biswa being wakarakbavillchamarheri The and Distt Patiala registered in the name of Sh. Amarjitsingh Mehta & Smt. Babita

2) Land measuring 2 Bigha 10 biswa having sale deed no.1304 dt 25.04.2012 registered with the sub registrarPatiala comprised with Khewat no. 35(1-8),31(9-13), Kita 2 being 50/221 share of 11 bigha 1 Biswa Tadadi 2 Bigha 10 biswawakarakbavill Chamarheri Tel

	2022/679	BATHINDA NEAR GHODEWALA CHOWK	All that Part and Parcel of Residential Property cum Plot measuring 206 Sq. Yard situated at Peerkhane Wali Gali, Sonu Tyre Street, Baba Farid Nagar, Bhatinda	24.10.2016 Rs. 868841.00	Rs. 5.40 Lacs
11	PUNB5856NAVTEJ01	Navtej Enterprises	Road, Jaitu, Distt Faridkot owned by Sh. Darshan Singh s/o Sh. Gurbachan Singh Vide RTD No. 505 Dated 23.06.2015. East-58' s/o Kasturi Lal, West-58' Tarsem Singh, North-32' Lakhwinder Singh, South-32' Street and Const. House. (Type of Possession: Physical Possession)	Intt. and Charges w.e.f. 01.10.2016	Rs. 0.54 Lacs
00	77173-01726			23.03.2017	25.02.2022
	2022/680	Bathinda Railway Road	All that part and parcel of Residential plot measuring 237.50 Sq yards (4.75 Biswa) situated at Street opposite Govt. Elementary School, Plot no 111 towards		Rs. 14.10 Lacs
11	PUNB0753BALAJI01	Balaji Trading co.	Multania road, Bathinda hanibg 4.75/61 share of property measuring 3 Bigha 1 Biswa, Khasra No. 4680 min(2-2), 4679/2 min(0-19), khewat khatoni no. 328/2604 & 329/2608 i.e 4.75 Biswa, jamabandi 1997-98, Patti Jhutti, multania Road, Bathinda purchased vide sale deed no 7552 dt. 03.11.2003 within the		Rs. 1.41 Lacs
	771	173-01704	registration Sub-District, bathinda, District Bathinda bounded by as per Sale deed in the name of Vinod Kumar S/O Chhajju Ram East: 30'-3" Strret of Multaina		25.02.2022

100	771	73-06021		22.07.2015	25.02.2022				
114	PUNB6183SEWAKA03	SEWAK AGRO INDUSTRIES	Motorcycle Showroom, Goniana Mandi, Distt. Bathinda owned by Sh. JAGDEV SINGH s/o Harchand Singh Vide RTD No. 394 Dated 24.05.2013. Bounded by East-15' Harpreet and Arshdeep, West-15' GurdevBajwa, North-11' GurdevBajwa, South-21'-5" Goniana Road. (Type of Possession: Physical Possession)	Rs. 3416923.00 Intt. and Charges w.e.f. 01.02.2015	Rs. 1.36 Lacs				
	2022/682	BHATINDA, BIWI WALA ROAD	All that Part and Parcel of Single Storey Commercial Shop admeasuring 27.08 Sq.Yard (As per Deed 25Sq.Yard) situated at Bathinda Road, Near Bajaj		Rs. 13.51 Lacs				
	771	73-01743		14.10.2021	25.02.2022				
113	PUNB0050ASQUAR01	A Square Charitable Society	12877 dated 17.03.2004, RTD No. 12878 dated 17.03.2004, RTD No. 13267 dated 29.03.2004 and RTD No. 6090 dated 25.08.2011 in the name of Sh. Yashpreet Singh (Type of Possession: Symbolic Possession)	Rs. 55976285.52 Intt. and Charges w.e.f. 01.04.2021	Rs. 15.08 Lacs				
	2022/681	Bathinda Bank Street	Commercial Plot measuring 557.25 Square Yards situated at GT Road Near TVS Service Centre Opposite Krishan Prem Sarovar Mandir, Bathinda vide RTD no.		Rs. 150.76 Lacs				
Ro	ad, West:- 30' plot North: 7	West:- 30' plot North: 72' 9: Plot South 73' 4" Plot. (Type of Possession: Symbolic Possession)							
		73-01704	registration Sub-District, battilinda, District Battilinda bounded by as per Sale deed in the flame of Villod Rufflar 5/O Crimajju Ram East. 30 -3 Street of Wullama	05.04.2017	25.02.2022				

**PLACE: BATHINDA** 

#### фнов то एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड कब्जा सूचन

पंजीकृत कार्यालयः ग्रीधका, २ग तल, लॉ गार्डन गेड, नवरंगपुग, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009 शास्त्रा कार्यालयः ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001

जैसा कि, विताय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्तिमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (2002 के 4) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोक्तसाक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित क्रमधारक की उक्त सूचना की ग्रांति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

-उक्त ऋणधारक/ सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह-धारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर

मधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति क व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतीं एव चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम 1) ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि: 4) मांग सूचना तिथि; 5) आईएनआर में मांग की गई राशि; 6) प्रतिभृतियों का विवरण

. ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नामः श्याम सिंह राठौर तथा किरण कँवर, सभीः प्लॉट नं. जीएचए , भवानी नगर – मुरलीपुरा, जयपुर– 302012; ऋण खाता सं. : 101690; ऋण की राशि: रु. 3900000 , निर्माण त्या कुलावुज, जन्मु उपस्थान विशेष २०००, जन्म जिल्ला है । एक जुन त्या सार्वा स्वर उपस्थान विशेष १०००, (रुपये उन्ताविक लाख मात्र) ; मांभ सूचना विश्व २०,००,०००, मांग की गई राशिः २२ जून, २०२१ को रु 7454798.20 (रुपये चौहत्तर लाख-चौवन हजार सात सौ अन्छानवे एवं पैसे बीस मात्र) के साथ अनुवागिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसुली तक आगे का अनुवधित ख्याज। प्रतिभृतियों का विवरण सम्प्रति प्लाट नं. : जीएच–1, एरिया 251.27 वर्षे यार्ड्स, भवानी नगर, मुरलीपुरा, जयपुर का सभी भाग त हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी : पूर्व : 30 फीट रोड, पश्चिम: अन्य भूमि, उत्तर: 60 फीट रोड, दक्षिण : प्लॉट नं.2 7) कब्जा की तिथि: 03.02.2022

. ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

## किसी भी प्रकार के स्पप्टीकरण के लिए कृपवा सम्पर्क करें: श्री प्रशांत गटौरः 9928818000, एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस ति., जाखा कार्यालव: ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम,

स्थानः जवपुर हस्ता./-एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिए तिथि: 08.02.2022 प्राधिकत अधिकारी

#### Hardwyn India Limited CIN: L74990DL2017PLC324826

Regd. Office: B-101, Phase-1, Mayapuri, New Delhi 110064 Email Id: accounts1@hardwyn.com Website: <u>www.hardwyn.com</u> Phone: +91-11-28115352 POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Compani Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on Tuesday, February 08, 2022 completed the dispatch of the postal ballot notice along with the postal ballot form through electronic mail to the members whose email IDs are red in the records of depository participants as on Friday, February 04, 2022 and through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Business reply envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matter:

item No.	Description of the Resolution
1.	Migration from BSE SME Platform to Main Board of BSE in addition to Main Board of NSE

The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot shall commence from Friday, February 11, 2022 at 09.00 AM and ends on Saturday, March 12, 2022 at 5.00 P.M. and for electronic mode voting shall comm from Friday, February 11, 2022 at 09.00 AM and ends on Saturday, March 12, 2022 at 5.00 P.M.

The Board of Directors has appointed M/s, KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinize for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinize not later than 05:00 PM on Saturday, March 12, 2022.

All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through e-voting/postal ballot forms after the aforesaid date shall not be considered valid

Any member who does not receive the Postal Ballot form may either send an email to or may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicat postal ballot form. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the compan (i.e. https://hardwyn.com/postal\_ballot.pdf

The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Wednesday, March 16 2022, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com

By Order of the Board of Directors

Rubaljeet Singh Saya Managing Directo

## जटालिया ग्लोबल वेन्चर्स लिमिटेड

पंजी, कार्यालयः 500, ड्यां तल, आईटीएल टिवन टावर, नेताजी सभाष प्लेस, पीतमपुरा, ईमेल: info@jatalia.in, CIN: L74110HR1987PLC049459 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

					( साश	ત. ભાવામ)
Г		समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माही		समाप्त वर्ष
	विवरण	31.12.2021 ( अनंकेक्षित )	31.12.2020 ( अनंकेक्षित )	31.12.2021 ( अनेकेक्षित )	31.12.2020 ( अनेकेक्षित )	31.03.2021 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	10	2.56	_ =	8.24	11.92
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(27.97)	(18.97)	(379.85)	(24.73)	-141.52
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ ( ज्ञानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(27.97)	(18.97)	(379.85)	(24.73)	-141.52
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(27.97)	(19.04)	(379.85)	(25.10)	-142.11
5.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1497.56	1497.56	1,497.56	1497.56	1497.56
6.	आरक्षित पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त	720.52	1209.26	720.52	1209.26	1081.66
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी एवं अवरुद्ध प्रचालनों के लिये) क) मूल ख) तरल	(0.02)	(0.01)	(0.25)	(0.02)	(0.09)

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेवी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई समाप्त तिमाही के वित्तीय जटालिया ग्लोबल वेन्चर्स लिमिटेड के लिये

हस्ता./-तिथि: 08.02.2022 DIN: 00014601

# TATA

#### टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शाखा कार्यालय : साई टावर, दूसरी मंजिल, 9, भार्गव एस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपर-208001

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सुचना

## ऋण खाता सं. ६३१४०५७ (इन्दु मिश्रा)

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार/टीसीएफएसएल) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है 'जैसे है जहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 2 मार्च, 2022 को बिक्री की जायेगी। जबकि प्रतिभत आस्ति का विक्रय प्रतिभत ऋण की वसली के लिए किया जाना है तथा जबकि कर्जदारों/सह-कर्जदारों, अर्थात 1. सुश्री इन्दु मिश्रा, 2. मैसर्स इन्दु एन्टरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर सुश्री इन्दु मिश्रा के माध्यम से, 3. मैसर्स डायमंड होमियोपैथिक हॉल, इसके साझेदारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा के माध्यम से, 4. मैसर्स डायमण्ड प्रॉडक्ट्स, इसके साझेदारी श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा के माध्यम से तथा 5. सभाष चन्द्र मिश्रा से समस्त लागतों. ब्याज आदि सहित 18 सितम्बर. 2018 तक रू. 1.13.04.500/-(रुपये एक करोड़ तेरह लाख चार हजार पाँच सौ मात्र) बकाया था।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई–नीलार्म के माध्यम से कथित २ मार्च, २०२२ को २ बजे अपराह्न टीसीएफएसएल, शाखा कार्यालय : साई टावर, दसरी मंजिल, ९ भार्गव एस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001 द्वारा की जायेगी। ईएमडी, डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति की खरीद हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 1 मार्च, 2022 को 5 बजे अप. तक ग्रहण की जायेगी।

प्रतिभूत आस्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य (रु.) ईएमडी (रु.)
सम्पत्ति सं. 1 : फ्लैट नं. 401, परिसर सं. 127/216 बाड़ा देवी, जुही कानपुर नगर में चौथे तल पर सामने की ओर स्थित, माप 620 वर्ग फीट = 57.62 वर्ग मीटर तथा भूमि माप 43.17 वर्ग मीटर में अविभाजित हिस्सा, सीमाएँ : पूर्व : खुला स्थान, पश्चिम : कॉमन क्षेत्र, उत्तर : खुला स्थान, दक्षिण: फ्लैट नं. 402		₹. 20,04,800/- ₹. 2,00,500/-
सम्पत्ति सं. 2 : यूनिट नं. 35, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित माप 230 वर्ग फीट अर्थात 21.38 वर्ग मीट, सोमदत्त प्लाजा द मॉल, कानपुर, भूमि माप 7.13 वर्ग मीटर में अविभाजित हिस्सा, उल्लिखित कॉमन सुविधा सहित चिलेख के साथ संलग्न प्लान में प्रदर्शित, यूनिट की सीमाएँ : उत्तर : दुकान नं. एलजी 36ए तथा 37, दक्षिण : दुकान नं. एलजी-34, पूर्व : दुकान नं. एलजी 38, पश्चिम : 2 मीटर कॉमन पैसेज तथा स्टेयर केस।	3 3 10 4 1	₹. 27,00,000/-

. \*संविदाकार संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से सभी सम्पत्तियों हेतु अपनी संबंधित बोली लगा सकते हैं। बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलिमले में किसी

भी पुकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो. चाहे पुत्यक्ष या परोक्ष रूप से. वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित य अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बिक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित 2 मार्च, 2022 को 2.00 बजे अपराहन से 3.00 बजे अपराहन के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से की जायेगी। सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि कानपुर, उत्तर प्रदेश में देय''टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि.'' के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण 16.02.2022 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है।

नोट : इच्छुक संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी श्री जगदीप सहरावत, ई-मेल आईडी : jagdeep.sehrawat@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. 8588806158 पर सम्पर्क कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://www.tatacapital.com/con-

tent/dam/tata- capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf में प्रावधानित लिंक देखें अथवा अधिकृत प्राधिकारी या सेवा प्रदाता नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें।

तिथि : 09.02.2022

स्थान : कानपुर, उत्तर प्रदेश

अधिकृत प्राधिकार्र टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पवनसूत होल्डिंग्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 415, उषा किरण भवन, वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर दिल्ली-110033, फ्रोन् नं.: 011-45689333 ईमेल आईडी: pawansutholdingsltd@gmail.com,वेबसाइट: www. pawans

समाप्त नौमाही समाप्त पूर्व वर्ष 31.12.2020 31.12.2020 31.12.202 1.03.202 अनंकेक्षित अंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित 61.28 रिचालनों से कुल आय 2.09 19.30 11.34 0.01 -1.88 0.10 -23.8 अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असामान असाधारण मदों से पूर्व) 0.01 0.10 -23.8 . कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असामा -1.88 और/या असाधारण मदों के बाद कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (असा 0.01 0.10 -23.8

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही व नौमाही के अनंकेक्षित वितीय परिणामों का सा

और/या असाधारण मदों के बाद) . इक्किटी शेयर पंजी 1131.39 1131.39 1131.39 1131.39 0.00 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) (पु वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति के) (जारी तथ अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 0.00 0.00 तरल

. ... उपरोक्त परिणामों को 8 फरवरी. 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्त

श्यानः नई दिल्ली

युनियन बैंक ऑफ इंडिया (कारपोरेशन बैंक)

. भे माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

उस उदे्दश्य के लिए लिया जाएगा।

ार संपर्क कर सकते है।

द्वारिका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली— 110075

प्रबंधक निर्देशक मैसर्स अंतिरक्ष इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड,

अंजनेय आशीवाद भारद्वाज एवं अन्य

तिथि: 08.02.2022

सेवा में

परिणामों के विस्तृत पारूप का सार है तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाई (www.pawansutholdings.com) पर उपलब्ध है।

ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली

1. श्री अंजनये आर्शीवाद भारद्वाज पुत्र श्री कुवंर पाल शर्मा, निवासी: फ्लैट नं0 2104, संत

2. मौहम्मद नुईमुद्दीन पुत्र शाहबुद्दीन शरफुद्दीन मौहम्मद, निवासीः 901, जवाहर होस्टल

पंजीकृत ऑफिसः 34/सी-8, सेक्टर-8, रोहिणी दिल्ली- 110085, इसके अलावाः प्लॉट

नं0 जीएच-15ए, सेक्टर-1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०। जलरदाता ३

छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौर उनचास रू0 एवं चौंसठ पैसे मात्र) एवं यह कि,

माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संमव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया

नाता है कि आप दि0 03.03.2022, सुबह 10.30 बजे (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी

के वेबसाइट www.etribunal.gov.in, फोन नं0 011–23748473 पर जाए।) अथवा इससे

पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम

सूबित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और

. (ब) रजिस्ट्रार / टेक्यूमेंट्स ऑफिसर—। / और रिकवरी ऑफिसर—।। द्वारा ली जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए 'मीटिंग आईडी' और 'पासवर्ड' डीआरटी ऑफिशियल में

अगली तारीख से एक दिन पहले मिलेगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात्

"drt.gov.in". (स) किसी भी योग्यता जो अधिवक्ता / अम्यर्थी संबंधित अधिकारी से फोन नं0 011—23748473

दिनांक 21 जनवरी 2022 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

प) सभी अमिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें ।

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध रू. 46,36,849.64 /- (रूपये

शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएंडा, जी0बी0 नगर, उ0प्र0- 201306

सुन्दर दास जी सीजीएचएस, प्लॉट नं0 21, सेक्टर-12, निकट सैम इंटरनेशनल स्कूल

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001

निदेशक मंडल के ओर से व उन्हीं के लि पवनसुत होल्डिंग्स लिमिटेड के लि (राम किशोर बंसल

प्रबंध निदेश डीआईएनः ०५१९५८१

उत्तरदाताः

सत्तरदाता

फोक्स इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड CIN: L15319DL1985PLC021348 पंजीकृत कार्यातय: 104, मुकंद हाउस, वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर, दिल्ली-110033 ईमेस आईडी :info@focuslimited.in | वेबसाहट: www.focuslimited.in | फोन नंबर: 011-27 । फोन नंबर: 011-27676399

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के

(रु. लाख में समाप्त पूर्व वर्ष 31.03.202 तिमाही विवरण अनंकेक्षित अनेकेक्षित अनंकेक्षित अकेक्षित 3.06 17.22 52.72 परिचालनों से कुल आय 14.26 और/या असाधारण मदों से पूर्व) 0.01 -38.72 0.12 -39.97 कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध ला (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद 0.01 -38.72 0.12 -39.97 . कर के बाद अवधि के लिए शुद्धला -38.72 -39.97 (असामान्व और/या असाधारण मदों के बाद 0.01 0.12 1219,42 1219,42 1219,42 1219,42 . आरक्षित (पुनर्मृल्यांकन आरक्षित को छोडकर . अंकेक्षित तुलन पत्र में दश 0 0 0 887,79 अनुसार) अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति के) (जार्र तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)

उपरोक्त परिणामों को 8 फरवरी. 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये।

उपरोक्त सेबी ( सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा ) विनियमन, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल व गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है।

तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्प की वेबसाईट (www.focuslimited.in) पर उपलब्ध है।

> निदेशक मंडल के ओर से व उन्हीं के ि फोकस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड के लिटे

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(ममता जिंदल स्थानः नर्ड दिल्ली प्रबंध निदेश तेथिः 08.02.202 डीआईएनः ०००८५०१

डेल्टा लीज़िंग एंड फाइनेंस लिमिटेड् पंजीकृत कार्यात्तयः ५५, एफ.आई.ई., गटपढ़गंब औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110092 CIN :L67120DL1983PLC016990

ा दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही व नौमाही के अनंकेक्षित वितीय परिणामों का सा

रु. लाख में विवरण 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2021 अनेकेक्षित अनेकेक्षित अनंकेक्षित अंकेक्षित परिचालनों से कुल आय 2.05 18.60 11.55 54.91 अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर 0.22 0.12 -6.94 और/या असाधारण मदों से पूर्व 0.22 -7.13 0.12 -6.94 कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाध असामान्य और/या असाधारण मदों के बाव कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध ला 0.22 -7.13 0.12 -6.94 असामान्य और/या असाधारण मदों के बार 5 इक्किटी शेयर पुंजी 1160.23 1160.23 1160.23 1160.23 आरक्षित (पुनर्म्ल्यांकन आरक्षित 0.00 0.00 923.12 छोडकर) (पर्व वर्ष के अंकेक्षित तलन पत्र दर्शाए अनुसार)

. उपरोक्त परिणामों को 8 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये। उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल क

0.00

गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है।

तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज को वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्प की वेबसाईट (www.deltaleasing.in) पर उपलब्ध है।

डेल्टा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (रेनू जिंदल डीआईएनः 01843439

0.00

पंजाब मिम्रमल बैंक 😉 punjab national bank iडल शस्त्रा केंद्र देहरादून-पश्चिम, प्रथम तल, विधान सभा रोड, विधान समा के सामने, देहरादून (उत्तराखण्ड)

ट्रिब्युनल के आदेशानुसार रजिस्ट्रार

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

0.00

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे प्रत्येक खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं।

थानः नई दिल्ली

तिथि: 08.02.2022

अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति के) (जा

तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)

क्र0 सं0	के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	1321 1311-1	का ाताथ	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	अरुणीः 1.श्री चंद्र मोहन सेठी पुत्र श्री आर.के. सेठी, पता-1: एच.सं.160 ऋषि विहार मेहूवाला, माफी देहरादून, पता-2: 7 ए कृष्णा काम्लेक्स सेठी मार्केट, देहरादुन, ऋणी/बंधककर्ताः	बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 01087 (फसली वर्ष 1411 से 1416), खसरा नं0 84 खा माप क्षेत्रफल 1000 वर्ष फीट अर्थात् 92.9 वर्ष मीटर स्थित मौजा मेहूवाला माफी परगना पष्ठवादून, जिला- वेहरावून, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती संविता सेठी पत्नी चन्न मोहन सेठी। सीमाएँ:- पूर्वः किरण देवी की श्रूमि, साइड माप 50 फीट, पुचिना: विकेता की श्रूमि, साइड माप 50 फीट, उत्तर: 28 फीट चौड़ा रास्ता, साइड माप 20 फीट, वित्रेत की श्रूमि, विहार मेहूंवाला माफी, वेहरादून।		07.02.2022 सांकेतिक कब्जा	रु0 10,82,2568 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2021 से
	<u>ऋणी/</u> बंधकरुर्ताः श्री मदन लाल पुत्र श्री अमर चंद, <u>सह-ऋणीः</u> श्रीमती प्रवीण पत्नी मदन लाल, पता-1: एच.सं. 178/4 लाखी बाग, देहरादून पता-2: नगर पालिक सं0 21/62/34 लाखी बाग, देहरादून।	सम्पत्ति नं0 1. बंधक सम्पत्ति स्थित नगर निगम म्यूनिसिपल नं0 21/62/34 (नया नं0 62/5/34) लखी बाग देहरादून, कुल माप क्षेत्रफल 540 वर्ग फीट अर्थात् 50.18 वर्ग मीटर (विक्रेय विलेख सब-एजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून कुक नं0 1 वॉल्यूम नं0 5190, पेज नं0 1-24, क्र0सं0 4956, दिनांक 29.05.2013 पर पंजीकृत है। सीमाएँ- पूर्वः 17 फीट चौड़ा रास्ता, साइड माप 13 फीट 3 इंच, परिचमः श्री कमल सिंह रावत की सम्पत्ति, साइड माप 13 फीट 3 इंच, उत्तरः श्री राजेन्द्र कुमार की आम दीवार, साइड माप 81 फीट, दक्षिणः श्री नवाब अली की सम्पत्ति, साइड माप 41 फीट। सम्पत्ति स्वामी श्री मदन लाल पुत्र श्री अमर चंच		सांकेतिक कब्जा	11,29,545.70 + ब्याज़ एवं अन्य खर्चे विनांक 01.04.2021 से

सम्पत्ति नं0 2. बंधक सम्पत्ति स्थित नं0 178/4 (नया नं0 314/3/178/1) स्थित लखी बाग देहरादून, कुल क्षेत्र 36 वर्ग मीटर (विक्रेय विलेख सब-राजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून बुक नं0 1, वॉल्यूम नं0 498, पेज नं0 47 इसके अतिरिक्त बुक नं0 1, वॉल्यूम 157, पेज नं0 617-636, क्र0स0 3340, दिनांक 31.08.1998 पर पंजीकृत हैं।) सीमाएँ:- नाली के बाद रास्ता एवं नाला, पश्चिमः श्री रघुवीर सिंह की सम्पत्ति, उत्तरः आम दीवार एवं श्रीमती गुरूदीन कीर की सम्पत्ति, दक्षिणः आम दीवार एवं श्री भूवन चन्द पांडेय की सम्पत्ति। सम्पत्ति स्वामी श्री मदन लाल पुत्र श्री अमर चंद।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक स्थान – देहरादून दिनांक: 08.02.2022

Standalone

सार्वजनिक सूचना

क्ट सार्वजनिक सचना माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.202

अनुसरण में जारी किया जा रहा है। . रातद्वारा सूचना दी जाती है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम मेसर्स गुप्ता एक्जिम (इंडिया) प्रा. लिमिटेड के मामले और विवेक रहेजा, रिजॉल्युशन प्रोक्तेशनल बनाम संतीप गुना एवं अन्य के मामले में सीपी (आईबी) संख्य 312/सीएचडी/एचआरचाई/2018 (स्वीकृत मामला) में 2021 की आईए संख्या 263 के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 43 और

56 के तहत एक आवेदन माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीट, चंडीगढ़ के समक्ष दायर किया गया है। ठठ के तहत एक आवदन माननाथ राष्ट्राय कम्पना चाब आबकरण, पडानड़ भाठ, पडानड़ के समस्र दायर किया गया है. एतहारा आगे सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीट, चंडीगढ़ के समक्ष उपर्युक्त म में सुनवाई की अगली तारीख 14.02.2022 हैं और नीचे उल्लिखित प्रतिवादी अर्थात,

प्रतिवादी संख्या ६, मेसर्स आर के इंटरजेशनल, 62 रामा रोड, गजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015 प्रतिवादी संख्या 10, मैसर्स अरिष्ट स्पिनिंग मिल्स, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब-141011

प्रतिवादी संख्या 11. मैसर्स ऑरो डाइंग, चंडीगढ रोड, लिधयाना, पंजाब-141011 अर्पालार्य संख्या 12, मैसर्स आर्य अहर, जुडाग चुडा, चुडाग चड, चुडानारा, नजान-ानाजा प्रतिवार्य संख्या 12, मैसर्स आर्थी स्मिनेग मिल्स, चंडीगढ़ रोड, चुडियाना, पंजाब-141011 प्रतिवार्य संख्या 18, मैसर्स ऋषभ स्थिनेग मिल्स, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब-141011

प्रतिवादी संख्या 27, मेसर्स अरिहत स्पिनि मिस्स, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब-141011 प्रतिवादी संख्या 30, मैसर्स अर्बन ट्रेंड्स, एससीएफ –5, मॉडल टाउन हांसी हिसार, हरियाणा, 125033; को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष अगली सुनवाई हेतु 14.02.2022 को उपस्थि

होने का परामर्श दिया जाता है। किसी स्पष्टीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है

कृते एवं हिते विवेक रहेजा समाधान प्रोफेशनल, मैसर्स गुप्ता एग्जिम (इंडिया) प्रा.लि C/o जेडी-2सी, बूसरी मॅजिल, पीतमपुरा, दिल्ली-110034  $\mbox{l}$  **ई-मेल** ; ip.guptaexim@gmail.com

#### पंजाब मैशनल बैंक punjab national ban

#### लॉकर तोड़नें के लिए नोटिस

निम्नलिखित लॉकर धारकों को बैंक रिकॉर्ड में पंजीकृत उनके आवासीय पते पर अतिदेय लॉकर की वसली के लिए नोटिस पहले ही दिया जा चका है। हमारे बैंक अधिकारी भी उसी पते पर गए हैं लेकिन लॉकर धारकों का पता नहीं चल रहा है

इसके अलावा बैंक निम्नलिखित लॉकर धारक को विज्ञापन / सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से तुरंत शाखा में जाने की सूचना देता है अन्यथा बैंक शाखा के पास लॉकर खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और संबंधित ब्रेक ओपन चार्ज, लॉकर का अतिदेय किराया और चाबी बदलने का शुल्क, अतिदेय लॉकर कैबिनेट से प्राप्त माल सूची से मूल्यांकक प्रभार वसूल किया जाएगा

1) प्रमोद कमार घकार, निवासी 111, माई परमानंद कॉलोनी, दिल्ली-09 2) समीर अग्रवाल और शालिनी अग्रवाल, निवासी एम-2/3, मॉडल टाउन, दिल्ली-09

3) पूजा जैन, निवासी सी—1 / 18, मॉडल टाउन, दिल्ली—09 4) राजिंदर कौर और अजीत सिंह, आर / ओ जे—6 / 85, राजौरी गार्डन, दिल्ली—27 5) तीरथ राम सैनी, निवासी सी-150, ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली-34

पंजाब नेशनल बैंक

मॉडल टाउन-।।।, दिल्ली-110009

**IDBI** BANK

आईडीबीआई बैंक लि.

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के अंतर्गत सूचना

आकाश पोत्रताल (उधारकर्ता श्रीमती इंद्रेश (सह-उधारकर्ता) त्र प्रेम पोसवाल मकान सं. ६७७, फुलवारी पलवल सिंह, फुलवारी असोता, पलवल, हरियाणा 121102

पत्नी प्रेम पोसवाल, मकान सं. 677, फुलवारी पलवल हरियाणा, 121105 श्री आकाश पोसवाल (उधारकर्ता) मकान सं. 11, मौजा पलवल राम नगर, अंडर हथ नगर, परिषद, तहसील एवं जनपद पलवल

श्रीमती इंद्रेश (सह-उधारकती) मकान सूं. 11, मौजा पलवल राम नगर, अंडर हथ नगर, परिषद, तहसील एवं जनपद पलवल

श्री प्रेम चंद (सह-उधारकर्ता) मकान सं. 11, मौजा प्रलवल राम नगर. अंडर हथ नगर, परिषद, तहसील एवं जनपद पलवल

उपरोक्त उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त उधारकर्ता को रु. २०,००,०००/- (रुपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय सहायता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई बैंक) द्वारा शिक्षा ऋण के रूप में संस्वीकृत की गई थी। उक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति के अनुसरण में श्री आकाश पोसवाल, श्रीमती इंद्रेश और श्री प्रेमचंद द्वारा अनिवार्य ऋण एवं प्रतिभूति दस्तावेज निष्पादित किए गए थे। उक्त वित्तीय सहायता को अन्य बातों के साथ-साथ नीचे वर्णित सम्पत्तियों के स्वत्व विलेखों को जमा करके बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। जैसा कि उपर्युक्त उधारकर्ता ने दिनांक 11.01.2019 के ऋण समझौते के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उधारकर्ता के खाते को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक की बहियों में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उक्त उधारकर्ता द्वारा की गई चूकों को देखते हुए, आईडीबीआई बैंक ने अपने पत्र संदर्भ. क्रमांक आईडीबीआई बैंक/आरआर/दिल्ली-एनसीआर दिनांक ०२.11.2021 द्वारा ब्याज और अन्य धनराशि सहित वित्तीय सहायता को रु. २१,८३,०६४/- (रुपये इक्कीस लाख तिरासी हजार और चौंसठ केवल) के रूप में घोषित किया जो कुलराशि 05.03.2021 के अनुसार ऋणकर्ता पर बकाया है, जिसमें (04.03.2021 के अनुसार ब्याज भी शामिल है), जो राशि उधारकर्ता द्वारा तुरंत देय और भुग्तेय है और उधारकर्ता से कहा जाता है कि वह आईडीबीआई बैंक को 05.03.2021 से लेकर के भुगतान या वसूली तक, उक्त पत्र में बताए गए अनुसार संविदात्मक दर पर, बकाया राशि पर ब्याज के साथ उक्त कुल बकाया राशि का भुगतान करें। दिनांक ०५.०३.२०२१ के अनुसार रू. २१,८३,०६४/-(रूपए इक्कीस लाख तिरासी हजार एवं चौंसठ मात्र) की एक बकाया राशि जो है वह भुगतान/वसूली होने तक संविदात्मक दर के हिसाब से मूल राशि पर ब्याज के साथ श्री आकाश पोसवाल, श्रीमती इंद्रेश और श्री प्रेम चंद की ओर से आईडीबीआई बैंक को देय-भुग्तेय है।

आईडीबीआई बैंक द्वारा आवश्यक नोटिस जारी/तामील किया गया, जिसे सरफेरी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के संबंधित पते पर ''पावती देय के साथ पंजीकृत डाक" के साथ भेजी गई थी, जो डाक टिप्पणी "अपर्याप्त पता" के साथ बिना सेवा के लौदा दी गई थी। पर्वोक्त के महेनजर, सरफेरी नियमों के नियम 3 (1) के प्रावधान के अनुपालन में यह सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। कृपया ध्यान दें कि आप किसी भी प्रतिभत परिसंपत्ति को आईडीबीआई बैंक की पर्व लिखित

सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे या अन्यथा (अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा) बेच नहीं सकेंगे। इस निर्देश का पालन करने में विफल होने पर आप सरफेसी अधिनियम की धारा २९ के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे।

हम आपका ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं। इन परिस्थितियों में, उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) से एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि

परोक्त राशि का इस सूचना की तिथि से साठ दिवसों के अंदर भुगतान करें, जिसमें विफल होने पर आईडीबीआई बैंक जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में अपनी बकाया देयराशियों की वसूली करने के लिए सरफेसी अधिनियम और आईडीबीआई को उपलब्धानुसार किसी अन्य विधि-व्यवस्था के अंतर्गत भी उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत अपना प्रतिभूति हित प्रवर्तित करने का अधिकारी होंगे। संपत्ति का विवरण- मकान संख्या 11. मापन 5 मारला अर्थात 150 वर्ग गज. जो खेवट/खाता

संख्या ४०४९/४६४७, रेक्ट नंबर २८१, किला नंबर ३ (३-१४), ४ (३-६), ७(५-०), ८(६-२), 12/2(3-0), 13(8-0), 14(6-6), 15/1(2-3), 16(5-0), 17(8-0), 18(8-0), 19/1(3-0), 24/1(6-3), 22/2(2-6), 23/1(6-3), 25/1(5-18), 33(1-1) से समाविष्ट है, और जो मौजा पलवल राम नगर, अध नगर, परिषद, तहसील और जनपद पलवल में रिथत है। प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 08.02.2022 स्थानः साहिबाबाद

एवं उप महाप्रबंधक आईडीबीआई बैंक लि.

#### MEDICAMEN BIOTECH LTD. Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019

CIN: L74899DL 1993PLC056594 E-mail: cs@medicamen.com, www.medicamen.com Extracts of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the nine months ended on 31.12.2021 (Rupees In Lakhs) except per share data

Consolidated **Particulars** Quarter Ended Nine months ended **Quarter Ended** Nine months ended No. Ended Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Audited 31.12.2021 30.09.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.202 31 12 2021 30 09 2021 31 12 2020 31.12.2021 31.12.2020 31.03.202 1 Total income from operations 3299.65 3292.28 9407.39 9002.59 11090.06 3299.65 3346.84 3292.28 9407.39 9169.41 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items) 507.61 505.32 445.48 1487.51 1210.77 1675.12 507.61 505.32 445.48 1487.51 1229.33 1639.40 3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items) 507.61 505.32 445.48 1487.51 1210.77 1675.12 507.61 505.32 445.48 1487.51 1229.33 1639.40 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional 377.85 422.18 1215.17 834.32 1248.66 377.85 422.18 1215.17 848.25 1212.94 and/or Extraordinary items) 301.47 301.47 Total comprehensive income Profit/(loss) for the period (after tax) and other Compre 301.47 834.32 377.85 422.18 1215.17 1248.66 377.85 422.18 301.47 1215.17 848.25 1212.94 Equity Share Capital 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 1221.66 Reserves (excluding

Diluted Note:

Basic:

Place: New Delhi

Date: 08.02.2022

Revaluation Reserve as

each) (for continuing and

discontinued operation)

of previous year) Earnings Per Share (of Rs.5/-

shown in the Balance Shee

1 The Un-audited financial results for the quarter and nine months ended have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held

6.83

6.83

10.22

10.22

3.09

3.09

3,46

3.46

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting pratices and policies to the extent applicable.

The company operates only in one business segment, viz. Pharmaceuticals formulations, hence segment reporting is not applicable \* The other expenses include Rs. 2.50 Cr in respect of Oncology formulation plant at Haridwar which is under Product validation stage

The Earning Per Share has been calculated as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 -"Earning per Share"

Limited Review report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.

3,46

3.09

3.09

The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable

9.95

9.95

रेलटेल / उत्तरी क्षेत्र द्वारा **"उत्तर रेलवे के** फिरोजपुर महल के अमृतसर-पठानकोट खंड में पांच स्टेशनों (अर्थात वेरका जं. कथुनंगल, जैंतीपुरा, बटाला और छिना) पर इलेक्टॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ मानक-से मानक-II(R) तक सिग्नलिंग के उन्नयन के संबंध में टीआरडी कार्य हेतु योग्य बोलीदाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रिंत की जाती हैं। निविदा सूचना और निविदा

दस्तावेज www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल IREPS) पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

#### प्रपत्र संख्या एनसीएलटी. 3 ए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ-Ш, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी आवेदन सीए (सीएए) नं. 120/2021 आवेदन की सूचना

सैफेरो गोल्ड इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड में तथा उसके साथ वैसिलॉट एक्सपोर्स्ट लिमिटेड तथा यंसमैक ट्रेड इन्फ्रा लिमिटेड के समामेलन के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत 27 सितंबर, 2021 क गोविन्द रिशी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथ उक्त आवेदन पर राष्ट्रीय कंपनी विधि, अधिकरण, नई दिर्छ पीठ के समक्ष 11 जनवरी, 2022 को सुनवाई निर्धारित क गई थी, देश में कोविड-19 की विधमान चिंताजनक स्थिति के कारण उक्त सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च, 2022 को निर्धारित है। उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध के इच्छूक कोई भ व्यक्ति उनके नाम एवं पते के साथ उनके या उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सचन आवेदक के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह आवेदन की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व आवेदक के अधिवक्ता के पास पहुंच जाये। यदि वे आवेदन का विरोध करना चाहें तो उ सूचना के साथ विरोध के कारणों अथवा शपथ पत्र क प्रति प्रस्तुत करें। उसके लिए निर्धारित शुल्कों के भगता-पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति कं अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवेदन की प्रति उपलब्ध कराः तिथि: 08.02.2022

नाम : गोविन्द रिर्श (आवेदक के अधिवक्ता पताः डी-112, पंचशील एन्क्ले नई दिली-110017

नई दिल्ली

For Medicamen Biotech Limited

Rahul Bishnoi Chairman

2.47

9.95

9.93